



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 292) पटना, मंगलवार, 19 मार्च 2024

सं० 08/परि०-06-02/2024 सा०प्र०-1375
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

23 जनवरी 2024

श्री संजय कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक-297/2023, अपर समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी, अरवल के विरुद्ध राजस्व एवं बंदोबस्त कार्यालय से संबंधित कार्यों में आम जनों से लगातार शिकायत प्राप्त होने, नकारात्मक रूप से कार्य करने, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करने तथा अपने वरीय पदाधिकारी की छवि धूमिल करने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के प्रावधानों के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

(2) निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-10(1) के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(3) निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

(4) श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संबंधी आदेश अलग से निर्गत की जाएगी।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 292-571+10-डी०टी०पी०

Website: <http://egazette.bih.nic.in>